



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 368]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 1982/अग्राहायण 16, 1904

No. 368] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 1982/AGRAHAYANA 16, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संज्ञासूचक

प्राक्य नियम

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1982

सां०कां०नि० 734(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपशिष्टन निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपशिष्टन निवारण नियम, 1955 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि धारा 23 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उन्में प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर उन तारीख से जिसको उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर या उस के पश्चात् विचार किया जाएगा।

पूर्वोक्त अधिनियम की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की भावना जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति ने प्राप्त होगा, केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी।

1048 GI/82

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपशिष्टन (संशोधन) नियम, 1982 है;

2. खाद्य अपशिष्टन नियम, 1955 में, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है);

(i) नियम 7 के, उपनियम 3 में, "परिवर्तन करेगा" शब्दों के स्थावर पर 'भेजेगा', शब्द रखा जाएगा,

(ii) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

32. लेबल की अन्तर्बस्तु:— जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उप-बन्धित न हो, प्रत्येक बट्टी/केट जिसमें खाद्य-पदार्थ हो, पर एक लेबल होगा और प्रत्येक लेबल पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा—

(क) पैकेज में रखे गए खाद्य का नाम, व्यापार नाम या बर्तन,

(ख) पदार्थ में प्रयुक्त संघटनों के नाम, यथास्थिति, संरचना में भार या प्रचलता के अनुसार अवगोही क्रम में।

टिप्पण:— (i) संघटकों की सूची में दिए गए संघटकों के लिए, एक विनिर्दिष्ट नाम का प्रयोग किया जाएगा भिन्न-भिन्न इसके कि संबंधित वर्गों के अन्तर्गत आने वाले संघटकों के लिए निम्नलिखित वर्ग नामों का प्रयोग किया जाएगा. खाद्य बना; खाद्य तेल; गर्म मसाले और मसाले; स्टार्च (उपान्वित स्टार्च को छोड़कर)

- (ii) संबंधित वर्गों के अन्तर्गत आने वाले और खाद्य-पदार्थों में साधारणतया प्रयोग के लिए अनुज्ञात खाद्यों या पदार्थों की सूची में आने वाले पदार्थों के लिए निम्नलिखित वर्ग नाम प्रयोग किए जा सकेंगे: प्रतिभाक्सीकारक; विरंजन कारक, पायसीकारक और स्थायीकारक; परिरक्षक”
खाद्य रंग: खाद्य सुरुक्षिक तथा खाद्य गोंद।
- (ग) विनिर्माता या प्रायागकर्ता या विक्रेता या पैकज का नाम और पूरा पता.
- (घ) शुद्ध भार या संख्या या माप या मात्रा या घनत्वस्तु जैसा परिस्थितियों से अपेक्षित हो, विस्फुट, डबल रोटी कम्पैक्शनरी और मिठाइयों को छोड़कर जहाँ भार या तो प्रसिद्ध शुद्ध भार के रूप में और या न्यूनतम शुद्ध भार में प्रकट किया जा सकेगा।
- (ङ) सुघृष्य बैच संख्यांक, या लाट संख्यांक या कोड संख्यांक; बैच संख्यांक या लाट संख्यांक या कोड संख्यांक दर्शित करने वाले प्रक के पूर्व, शब्द “बैच संख्यांक” या “बैच” या “लाट संख्यांक” या “लाट” या कोई अन्य सुषेवक उपसर्ग होगा।
- (च) मास और वर्ष जिसमें वह वस्तु विनिर्मित या पूर्व पैक की गई :
परन्तु उग पैकज की दशा में जिनका भार 20 ग्राम से अधिक नहीं है, शब्द (ख) के अधीन विवरण विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मल्टीपीम पैक के लेबल पर ऐसी घोषणा लिखी जाएगी,
परन्तु यह और कि कार्बोनेटीकृत जल प्राधानों और 60 ग्राम से अधिक किन्तु 120 ग्राम से अधिक के विस्फुट, कम्पैक्शनरी और मिठाइयों के पैकेज और 60 ग्राम से अधिक के अन्य खाद्य पैकेजों पर, शब्द (घ) और (ङ) के अधीन विवरण विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है ;
परन्तु यह और कि उस पैकेज की दशा में जिसमें डबलरोटी है और बोतल के दूध का दशा में जिसके अन्तर्गत विसंक्रमित दूध भी है, शब्द (ङ) के अधीन विवरण विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
- परन्तु यह भी कि जिस मास और वर्ष में वह वस्तु विनिर्मित या पूर्व-पैक की जाती है उसके संबंध में कोई घोषणा, निम्नलिखित पर की जानी अपेक्षित नहीं होगी:—
- (i) कोई नोनल जिसमें द्रव दूध ऐसी वस्तु जिसका मंचक द्रव पेय हो, दूध पेय और तैयार दूध पेय या वीसा हो कुछ जो उपभोक्ता द्वारा पुनः भरण के लिए वापस किया जाएगा;
- (ii) कोई पैकेज जिसमें डबलरोटी, डिब्बाबंदन की गई कोई सब्जी फल, धातु-नीय, मखन, पनीर, गछली मास या बीनी हो कोई वस्तु है;
- (iii) कोई खाद्य पैकेज, जहाँ उस वस्तु का शुद्ध भार या माप यदि वह भार या माप से विषय की जाती है, बीस ग्राम या बीस मिली लिटर या उससे कम हो;
- स्पष्टीकरण-1: “लेबल” शब्द से किसी खाद्य पैकेज के प्रपत्रान, ढक्कन और/या ऊपरी ढाट पर लिखित मुद्रित, छिद्रित, स्टेंसिल किया हुआ समुद्रम या स्टाम्पिंग मासमी का संप्रदर्शन अभिप्रेत है।
- स्पष्टीकरण-2: बैच संख्यांक या कोड संख्यांक या लाट संख्यांक एक पहचान चिह्न है, जिसके द्वारा खाद्य के विनिर्माता का पता किया जा सकता है और वितरण में उसकी पहचान की जा सकती है।
- स्पष्टीकरण-3: मल्टीपीम पैकेज से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें अलग-अलग या एक संपूर्ण पैकेज के रूप में फुटकर विप्रेत के लिए प्राणयिन समान मात्रा में अलग-अलग पैक की हुई और लेबल की गई एक ही वस्तु हो।

- (iii) नियम 37क के अन्तर्गत पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
37क—यदि खाद्य में, जहाँ सामयिक या व्यापार नामों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उस खाद्य या योग्य के नाम का, जिसके अन्तर्गत वह इन नियमों के अधीन आता है लेबल पर भी बर्णन किया जाएगा। यदि खाद्य परिशिष्ट “ख” में विहित उत्पादों में से किसी में बर्णित नहीं किया जा सकता तो ऐसा खाद्य उस उत्पाद और उसके लेबल का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् विषय के लिए विनिर्मित या प्रदर्शित या भंडारकृत किया जाएगा।

परन्तु कृषि उपज (धोनाकरण और चिह्नकन) अधिनियम, 1937 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1954 के अधीन प्रादेशों के उपबन्धों के अधीन आने वाले खाद्य, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इन उत्पादों और खेवनों का अनुमोदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श में किया जाता है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्राप्त होंगे

परन्तु यह और कि खाद्य सुरुक्षिक विनिर्माता उनके मिश्रणों के लेबलों को, इस नियम के अधीन सघटकों के नामों की घोषणा से छूट प्राप्त होगा।

- (iv) नियम 64-ख के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

64-ग-मैथाल का उपयोग — यदि किसी खाद्य में मैथाल डाला जाता है तो वह भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[सं.गी० 15014/12/82-सं.ग.च० (एफ० एण्ड एन०)]

अ० ग० के० सिधान्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1982

G.S.R. 734(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) after consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of the section 23 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of ninety days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said rules before the expiry of aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1982.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (Here in after referred to as the said Rules);

(i) In rule 7, in sub-rule 3, for the word ‘deliver’ the word ‘send’ shall be substituted;

(ii) For rule 32, the following shall be substituted.

32. Contents of the label.—Unless otherwise provided in the rules, every package containing food shall bear a label and there shall be specified on every label—

(a) the name, trade name or description of food contained in the package.

(b) the names of ingredients used in the product in descending order of composition by weight or volume as the case may be.

Note :—(i) A specific name shall be used for ingredients in the list of ingredients except that—
for ingredients falling in the respective classes, the

following class titles may be used :

Edible fats; Edible Oils : Spices and Condiments ;
Starches (except modified starches)

(ii) for substances falling in the respective classes and appearing in list of food additives permitted for use in foods generally, the following class titles may be used ;

antioxidants ; bleaching agents ; emulsifying and stabilising agents ; preservatives ; edible colours ; edible flavours and edible gums.

(c) The name and complete address of the manufacturer or importer or vendor or packer.

(d) the net weight or number or measure or volume or content as the circumstances may require except in the case of biscuits, bread, confectionery and sweets where the weight may be expressed in terms of either average net weight and/or minimum net weight.

(e) A distinctive batch number, or lot number or code number, the figure representing the batch number or lot number or code number being preceded by the words "Batch No." or "Batch" or "Lot number" or Lot No. of "Lot" distinguishing prefix.

(f) the month and year in which the commodity is manufactured or pre-packed.

Provided that in case of package weighing not more than 20 gms, particulars under clause (b) need not be specified but such declarations shall be given on the label of multipiece pack.

Provided further that in the case of carbonated water containers, and the packages of biscuits, confectionery and sweets, containing more than 60 gms. but not more than 120 gms. and other food packages weighing not more than 60 gms. particulars under clauses (d) and (e) need not be specified

Provided further that in the case of package containing bread and milk in bottles including sterilised milk, particulars under clause (e) need not be specified.

Provided also that no declaration as to the month and year in which the commodity is manufactured or pre-packed shall be required to be made on :—

(i) any bottle containing liquid milk, liquid beverage as an ingredients, soft drink and ready to several food beverage or the like which is returnable by the consumer for re-filling;

(ii) any package containing bread, any uncanned vegetable, fruits ice-cream, butter, cheese, fish, meat or any other like commodity ;

(iii) any food package where the net weight or measure of the commodity is twenty grams or twenty millilitres or less, if sold by weight or measure ;

Explanation-I.—The terms "Label" means a display of written, printed, perforated, stencilled, embossed or stamped matter upon the container, cover lid and/or crown cork of any food package.

Explanation-II.—A batch number or code number or lot number is a mark of identification by which the food can be traced in manufacture and identified in distribution.

Explanation-III.—Multi piece package means a package containing two or more individually packaged or labelled pieces of the same commodities of identical quantity, intended for retail sale either in individual pieces the package as a whole. (iii) For rule 37-A, the following shall be substituted, namely,

37-A—All foods, where proprietary or trade names are used, the name of the food or category under which it falls in the rules shall also be mentioned in the label. In case, the food cannot be classified in any of the products mentioned in Appendix-B, then such a food shall be manufactured for sale or exhibited for sale or stored for sale after the approval or such a product and its labels from Government of India.

Provided that foods covered under the provisions of Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act, 1937 and orders under Essential Commodities Act, 1954, shall be exempted from the operation of this rule subject to the condition that such products and labels are approved in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare.

Provided further that the labels of food flavour preparation or mixtures thereof shall be exempted from the declaration of names of ingredients under this rule.

After rule 64-B, the following shall be inserted, namely :

(iv) 64-C—Use of Menthol.—Menthol if added to a food shall not exceed 0.1% by weight.

[No. P-15014/12/82-PH. (F&N)]

R. K. SINGHAL, Jt. Secy.

